

वैकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारत द्वारा [वैकोम सत्याग्रह](#) की शताब्दी मनाई गई, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने [असुपशयता एवं जाति उत्पीड़न](#) को चुनौती दी थी।

वैकोम सत्याग्रह क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- वैकोम सत्याग्रह, एक अहसिक आंदोलन था जो एक सदी पहले केरल के त्रावणकोर रियासत के वैकोम में 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था।
 - यह आंदोलन असुपशयता और जातिगत भेदभाव की गहरी प्रथाओं के विरुद्ध एक जबरदस्त विरोध के रूप में खड़ा हुआ, जिसने लंबे समय से भारतीय समाज को त्रस्त कर रखा था।
 - यह आंदोलन उत्पीड़ित वर्ग के लोगों, विशेषकर [एझावाओं के वैकोम महादेव मंदिर के आस-पास की सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध](#) के कारण शुरू हुआ था।
 - मंदिर के मार्ग खोलने हेतु त्रावणकोर की महारानी रीजेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के प्रयास किये गए।
 - यह भारत में पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन था, जिसने पूरे देश में इसी तरह के आंदोलनों के लिये मंच तैयार किया।
 - इसका उदय राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ हुआ और इसका उद्देश्य राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ-साथ सामाजिक सुधार में वृद्धि करना था।

■ प्रमुख व्यक्ति:

- इसका नेतृत्व [एझावा नेता टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. केलपन](#) जैसे दूरदर्शी नेताओं ने किया था।
- पेरियार अथवा थंथई पेरियार के नाम से सम्मानित [इरोड वैकटप्पा रामासामी](#) ने स्वयंसेवकों को संगठित कर भाषण के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें कारावास की सजा दी गई। उन्होंने 'वैकोम वीरर' की उपाधि धारण की।
- मार्च 1925 में [महात्मा गांधी](#) वैकोम पहुँचे और विभिन्न जाति समूहों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर इस आंदोलन को गति प्रदान की।

■ रणनीतियाँ और पहल:

- प्रारंभ में सत्याग्रह का लक्ष्य वैकोम मंदिर के आस-पास की सड़कों तक सभी जातियों के लोगों के लिये पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।
- आंदोलन के नेताओं ने गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित होकर रणनीतिक रूप से अहसिक तरीकों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया।

■ परिणाम:

- वैकोम सत्याग्रह के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सुधार हुए जिसमें प्रमुख सुधार मंदिर के आस-पास की **चार सड़कों में से तीन** सड़कों तक सभी जाति के लोगों की पहुँच सुगम करना था।

■ परिणाम और प्रासंगिकता:

- नवंबर 1936 में, त्रावणकोर के महाराजा ने ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किये जिसने [त्रावणकोर के मंदिरों में हाशिये की जातियों के प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया](#)।
- वैकोम सत्याग्रह ने [दृष्टिकोणों में बहिष्तन उत्पन्न कर दिया](#), कुछ लोगों ने इसे हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे जाति-आधारित अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में देखा।
- आंदोलन के महत्त्व के लिये वैकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय और पेरियार मेमोरियल सहित स्मारक स्थापित किये गए थे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

????????????

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है?

- (a) राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिविक्ताओं, वदियार्थियों और महिलाओं की सक्रियि
(b) राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलति और आदविासी समुदायों की सक्रियि भागीदारी
(c) भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कसिान असंतोष का सम्मलिति
(d) रोपण फसलों तथा वाणजियकि फसलों की खेती में भारी गरिवट

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. रॉलट सत्याग्रह के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

1. रॉलट अधनियिम 'सेडशिन कमेटी' की सफिरशि पर आधारति था
2. रॉलट सत्याग्रह में गांधीजी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास कयि।
3. साइमन कमीशन के आगमन के वरुिद्ध हुए प्रदर्शन रॉलट सत्याग्रह के साथ-साथ हुए।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a)केवल 1
(b)केवल 1 और 2
(c)केवल 2 और 3
(d)1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारकि धाराओं को ग्रहण कयि और अपना सामाजकि आधार का बढ़ाया। वविचना कीजयि। (2020)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/100-years-of-vaikom-satyagraha>

